

March 10, 2026

The BSE Limited

Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex.
Bandra (E), Mumbai - 400 051

SCRIP CODE: **543066**

SYMBOL: **SBICARD**

SECURITY: **Equity Shares/Debentures**

SECURITY: **Equity Shares**

Dear Sirs,

Re: Newspaper Publication - Information on Interim Dividend - FY 2025-26

Please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisement published in all editions of 'Business Standard' (English and Hindi), on March 10, 2026, regarding Information on Interim Dividend - FY 2025-26.

The same is also being uploaded on the website of the Company at www.sbicard.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SBI Cards and Payment Services Limited

Payal Mittal Chhabra

Chief Compliance Officer & Company Secretary

Date of Event: - March 10, 2026; Time: NA

SBI Cards and Payment Services Ltd.

DLF Infinity Towers, Tower C,
12th Floor, Block 2, Building 3,
DLF Cyber City, Gurugram - 122002,
Haryana, India

Tel.: 18001801290
Email: customercare@sbicard.com
Website: sbicard.com

Registered Office:
Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower,
E 1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi - 110034
CIN - L65999DL1998PLC093849

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



ZEBION INFOTECH LIMITED
THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE ("BSE SME")

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name "Zebion Infotech Private Limited" on June 10, 2010 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Maharashtra, Pune bearing CIN: U72209PN2010PT136549. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting, held on March 24, 2025 and consequently, the name of our Company was changed from "Zebion Infotech Private Limited" to "Zebion Infotech Limited" vide a fresh certificate of Incorporation dated April 22, 2025 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing CIN: U72209PN2010PL136549.

Registered Office: Sr. No. 383/8 FL 101 & 102 Atharv, Jayu New Timber Merchant Society, Ghorpade Path, Pune, Maharashtra, India, 411042.

Contact Person: Akash Chaturvedi, Company Secretary & Compliance Officer CIN: U72209PN2010PL136549

OUR PROMOTERS: YOGESH POPATLAL DAGALE AND ABHINANDAN POPATLAL DAGALE
"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE ("BSE SME")."

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 41,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ZEBION INFOTECH LIMITED ("OUR COMPANY" OR "ZEBION" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (x) PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ (x) PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (x) LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OF WHICH (x) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (x) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ (x) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION (I.E. ISSUE OF (x) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (x) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (x) LAKHS IS HEREBY REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE (x) % AND (x) % RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO 4,20,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION ("PRE-IPO PLACEMENT") PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE NUMBER OF EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE REDUCED FROM THE ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR").

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITION OF (x) A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND ALL EDITION OF (x) WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND MARATHI EDITION OF (x) REGIONAL NEWSPAPER (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF PUNE WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BIDDING OPENING DATE. IF APPLICABLE, SHALL BE WIDELY DISSEMINATED BY NOTIFICATION to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the charge on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding ten Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing in the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding ten Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the charge on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), the "QIB Portion", provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 50% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"). Out of the Anchor Investor Portion, 40% shall be reserved, of which (i) 33.33% shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies, and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription under (i) above, the allocation may be made to domestic Mutual Funds, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the issue price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-institutional Bidders (of which one-third of the Non-institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs and two-thirds of the Non-institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹10 lakhs) and under-subscription in other of these two sub-categories of Non-institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the issue price and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the issue price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Bid Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of individual Bidders using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amount will be blocked by the SCBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the issue through the ASBA process. For details, see "ASBA Procedure" beginning on page 295 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 247(2) of the SEBI ICDR Regulations, to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares of face value of ₹ 10 each pursuant to the issue and the Draft Red Herring Prospectus dated March 07, 2025 has been filed with the SME Platform of BSE ("BSE SME") on March 07, 2025. The Draft Red Herring Prospectus filed with BSE SME shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/download/222859/SME_IPO%20of%20ZebionInfotechLimited_20250307202457.pdf, on the website of the BRLM at www.brlm.com and also on the website of the Company www.zebion.in. Our Company invites the public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with BSE SME with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the BRLM in relation to the issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with BSE SME.

Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the information in the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section "Risk Factors" beginning on page 27 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus. The equity shares, when offered through the Draft Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the BSE Ltd. ("BSE SME"). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of BSE SME registrars to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see "Capital Structure" beginning on page 70 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the member(s) is limited, and this liability is limited to the amount unpaid if any, on the shares held by them. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" beginning on page 146 of the Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the issue has handled 65 Public Issues in the past three years, out of which 4 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	63	4 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE **REGISTRAR TO THE ISSUE**

 Hem Securities HEM SECURITIES LIMITED Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elnhorstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India Tel. No.: +91-22-40900000 Email: ipo@hemsecurities.com Investor Grievance Email: ndrsaal@hemsecurities.com Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Roshni Lahoti SEBI Regn. No. NM000010991	 Bigshare Services Pvt. Ltd. BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Atrium Centre, Mithibai Caves Road, Andher East, Mumbai-400093, Maharashtra, India Telephone: +91 22-6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Vinayak Morbale SEBI Registration Number: MB/INR000001385 CIN: U99999MH1994PT076534
--	--

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Akash Chaturvedi
ZEBION INFOTECH LIMITED
 Registered Office: Sr. No. 383/8 FL 101 & 102 Atharv, Jayu New Timber Merchant Society, Ghorpade Path, Pune, Maharashtra, India, 411042
 E-mail: cs@zebion.in, Tel.: +91 9623441166; Website: www.zebion.in

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

On behalf of the Board of Directors
 Zebion Infotech Limited
 Sd/-
 Akash Chaturvedi
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Pune, Maharashtra
 Date: March 09, 2025

Disclaimer: Zebion Infotech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on March 07, 2025. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/download/222859/SME_IPO%20of%20ZebionInfotechLimited_20250307202457.pdf and is available on the website of the BRLM at www.brlm.com and also on the website of the Company www.zebion.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities Laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.



SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

CIN: L65999DL1998PLC093849; Website: www.sbicard.com
 E-mail ID: investor.relations@sbicard.com

Registered Office: Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1.2.3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi 110 034, India; Phone: +91 (11) 6126 8100

Corporate Office: 2nd Floor, Tower-B, Infinity Towers, DLF Cyber City, Block 2 Building 3, DLF Phase 2, Gurugram, Haryana 122 002, India; Phone: +91 (124) 458 9803

INFORMATION ON INTERIM DIVIDEND - FY 2025-26

The Members of SBI Cards and Payment Services Limited (the "Company") are hereby informed that the Board of Directors of the Company, at its meeting held on Thursday, March 05, 2026, has declared an Interim Dividend of ₹2.50/- (Rupees Two and Fifty Paise) (25%) per equity share (face value of ₹10/- each) of the Company for the financial year 2025-26. The Record Date for the purpose of determining the entitlement of payment of Interim Dividend is Wednesday, March 11, 2026.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2025, notified on November 18, 2025, read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025, dividend shall be paid electronically to those shareholders who have updated their bank account details. The dividend warrants, demand drafts, cheques and any other instruments will no longer be issued. Accordingly, shareholders are requested to update their bank details covering name of the Bank and branch details including Bank account number, MICR code, IFSC code, etc. with their designated depository participants. If shares are held in physical form, same shall be updated with the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent (RTA).

Further, shareholders are also requested to update their PAN, Know Your Customer (KYC) details, contact details including e-mail address, nominations, power of attorney, etc. with their designated depository participants and if the shares are held in physical form, same shall be updated with Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agent (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel No. +91-8108116767, Website: www.in.mpmf.mufg.com or e-mail at investor.helpdesk@in.mpmf.mufg.com.

For SBI Cards and Payment Services Limited


Date: March 09, 2026

Place: Gurugram

Royal Mittal Chhabra

Chief Compliance Officer and Company Secretary

Tracking the rising tensions and readiness shaping today's strategic landscape.



MARCH 2026 | VOLUME 10 NUMBER 1 | 10888

Business Standard
BLUEPRINT
 DEFENCE & GEOPOLITICS

AT A CROSSROADS
 THE REACTION BEHIND A REVIVAL
 INDIA'S IRAN QUAGMIRE
 A DARK MATTER

For Subscription, Scan the QR code or visit bit.ly/BlueprintyBS

At a time of volatility and strategic recalibration, Blueprint delivers in-depth analysis and clarity on the consequential decisions reshaping the global power dynamics.

Business Standard
 Insight Out

[businessstandard](https://www.businessstandard.com) [bsindia](https://www.bsindia.com) [business-standard](https://www.business-standard.com)

[business-standard.com](https://www.business-standard.com)

‘खाड़ी क्षेत्र में भारत के हित सर्वोपरि’



एस जयशंकर, विदेश मंत्री अर्जुन सोहन

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संसद को बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का भारत को उच्च प्राथमिकता देना पड़ेगा है। संघर्ष उच्च प्राथमिकता के जोड़िए, उपलब्धता और लागत को ध्यान में रखते हुए आभूषित सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बाद सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को सुबह दोनो सत्रों में दिए गए बयान में जयशंकर ने कहा, 'हमारे लिए भारतीय उपभोक्ताओं के हित हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे हैं और ओपी भी रहे। मौजूदा अस्थिर हालात में जाहाना अख्तियार करके सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विश्व के हंगामे के कारण लोक सभा अस्थायी आम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के नोटिस पर चर्चा नहीं कर सकी। मंत्री ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका-इजरायल एंड ईरान के बीच लड़ाई को समाप्त करने के लिए भारत ने बातचीत का रस्ता अपनाया है और सभी देशों की संभूत और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की वकालत की है।

खरिदने वाली भारतीय ईरान में 28 फरवरी को भारतीय बंदरगाहों पर अपने तीन नौसैनिक जहाजों को डाकू करने के लिए प्रयास में अग्रणी मंगी थी और अगले दिन 1 मार्च को मंसूरी दे भी गई थी। इसमें एक युद्धपोत और भी कोलिय बंदरगाह पर खड़ा है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का महंगाई पर असर नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युद्ध की छाया में संसद को दी जानकारी

रफिका खिब्रतरी

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का देश में महंगाई पर कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया है, क्योंकि भारत को महंगाई इस समय निचले स्तर के करीब है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा।

निर्मला सीतारमण ने एक लिखित उत्तर में कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का महंगाई पर मध्यम अवधि का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति के प्रभाव, सामान्य मर्यादा की स्थिति तथा अग्रव्यवस्था-यू को सामा शामिल है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और आम नागरिक पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बचत स्टॉक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज को स्थानीय विक्रेताओं को सुविधा



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

और कम आपूर्ति को अवधि के दौरान निर्यात पर अनुश्रुताने जैसे कई कदम उठाए हैं। चौथे फरवरी माह के अंत और 2 मार्च के बीच कच्चे तेल का एक-अरब (ओन अरब डॉलर) मूल्य भारत के लिए 69.01 डॉलर से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल और भारतीय वायुसेवा की कीमतों में अस्थिरता को कम करने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री ने ताजा मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा था कि वैश्विक आर्थिक संकुचनों में देखा प्रवृत्ति करने के लिए कच्चे तेल की



भारत के अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता!

ईरान ने खामेनेई के बेटे को घोषित किया सर्वोच्च नेता

ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को सोमवार को देश का अगला सर्वोच्च नेता नामित किया गया। देश की 'असंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने उनका चयन किया है।

मुजतबा (56) के देश के अर्थसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड यूथ की शुरुआत के दौरान 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई (86) की मौत के बाद से इजरायल और खाड़ी के अरब देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा है। मुजतबा को उनके पिता से भी ज्यादा कट्टर विचारों वाला माना जा रहा है।

रूस के राष्ट्रपति कार्यालय केमेलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई को सोमवार को शांति के लिए प्रस्तावित किया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय केमेलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई को सोमवार को शांति के लिए प्रस्तावित किया है।

Kothari Mission Super Fine Vest advertisement with product image and contact details.

गड़बड़ा सकता है उर्वरक सब्सिडी का गणित

संजीव मुखर्जी

उर्वरकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए कीमतों की वजह से उर्वरक सब्सिडी का गणित गड़बड़ा सकता है। ग्लोबल बाजार में उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं। उर्वरक सब्सिडी का गणित गड़बड़ा सकता है। ग्लोबल बाजार में उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं।



उर्वरकों की बढ़ती कीमतें

वित्त वर्ष 27 के लिए बजट में उर्वरक सब्सिडी को 1,70,781 करोड़ रुपये आंका था। यह वित्त वर्ष 26 के संशोधित अनुमान 1,86,420 करोड़ रुपये से 8.4 फीसदी कम था। संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 26 के बजट अनुमान से 11 फीसदी से अधिक था। भारत द्वारा उच्च कीमतों पर यूरोपीय और चीनी की रफाई मात्रा में खरीद के कारण ऐसा हुआ। अब यूरोप और चीन की जैसे प्रमुख

उर्वरकों की आयात लागत और घरेलू उत्पादन की लागत बढ़ जायेगी, लेकिन किसानों पर बोझ कम डारने की कोशिश के तहत खुद देशों को स्थिर रखना होगा, इसलिए सब्सिडी का बोझ बढ़ने को संभवाना है। विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद से यूरोपीय कीमतों लगभग 100 डॉलर प्रति टन बढ़कर लगभग 600 डॉलर प्रति टन हो गई हैं, जबकि डीएपी की दर भी 650-670 डॉलर प्रति टन से बढ़कर लगभग 750-

पश्चिम एशिया संघर्ष से रिजर्व बैंक के लक्ष्यों पर मंडराता खतरा

वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन साधने में फंस सकती है मौद्रिक नीति समिति

अजय कुमार

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल की मौद्रिक नीति घोषणाओं में जिस 'गोल्डिलॉक' अवधि वाली आर्थिक विकास के लिए सुनिश्चित समर्थन का जिक्र किया गया था, उसमें अचानक बदलाव आने की आशंका बढ़ गई है। कम महंगाई और बेलायत आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के कारण फरवरी की मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई गवर्नर संजय मल्लोत्र ने अर्थव्यवस्था को स्थिति को अनुकूल बताया था। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध इस पूरी स्थिति को बदल सकता है।



रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति

कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण आरबीआई के सामने अब एक कठिन स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक ओर महंगाई बढ़ने का खतरा है वहीं दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि के दरवाजे बंद हो सकते हैं। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं।

जुद्धी उम्मीदों को बदल सकती है। 'केंद्रीय बैंक को सबसे बड़ी चिंता वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को दिला और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं से जुड़ी है। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री मदन समन्योस का कहना है कि यदि महंगाई अधिक तेजी से बढ़ती है तब बजट दरों में उम्मीद से पहले बढ़ोतरी की संभावना से अनकार नहीं किया जा सकता।

यह भी कहा कि अगर संघर्ष जल्दी खत्म हो जाता है तब कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में फिर से 'लंबे समय तक मध्यम' दर वाली स्थिति बन सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक वृद्धि से जुड़े तात्कालिक जोखिमों और घरेलू अर्थव्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक मजबूती को देखते हुए फिलहाल नीतिगत दृष्टि को स्थिर रखना उचित है क्योंकि ये कारक महंगाई को नियंत्रित करने का एक रास्ता है। आरबीआई-एफसी प्रैक्टिस बैंक को अर्थशास्त्री गौर सेन गुप्ता का कहना है कि केंद्रीय बैंक शुरुआती आपूर्ति बढ़के को नजरअंदाज करके घरेलू अर्थव्यवस्था को सुस्था पर ध्यान दे सकता है।

अचानक एमपी में फिस्कल इनकम के मुख्य निदेश अधिकारी सुधा चोपड़ी ने कहा, 'हाल ही में एक आश्चर्यकारी घटनाक्रम ने संकेत दिया था कि ब्याज दरें लंबे समय तक इसी स्तर पर या इससे भी नीचे रह सकती हैं। हालांकि उन्नीसवां भी स्पष्ट किया था कि यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक कोई बड़ा झटका न लगे।

फरवरी की मौद्रिक नीति समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने सीपी इन्फ्लेशन 5.25 प्रतिशत पर ब्याज दर को 5.25 प्रतिशत पर ब्याज दर को और अपनी 'टटरेट' नीति के रख को बरकरार रखा था जो फिलहाल प्रतीक्षा और स्थिति पर नजर रखने की रणनीति को दर्शाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अने वाले समय में ब्याज दर तब तक बढ़ेगी जब तक कि सावधानी से आंकड़ों पर आधारित रणनीति अपनाएगी।

इका की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, इस संघर्ष की अवधि और कच्चे तेल की कीमतों तथा घरेलू महंगाई पर उसके अंतरिम प्रभाव के बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्नीसवां, 'फिलहाल इंग्लैंड करने और स्थिति पर नजर रखने वाली रणनीति अपनाया है। समझदारी होगी और हर मौद्रिक नीति बैठक में बदलती हालात का जवाब आकलन किया जाना चाहिए। उन्नीसवां